

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 12.11.2021

ट्रेनों / बसों में यात्रा करने वाले मुसाफिरों से जहर खुरानी करने वाला शातिर/कुख्यात जहरखुरान गिरफ्तार

थाना सिगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0528/2021 धारा 8/22 NDPS Act से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से 110gm नशीला पाउडर अल्प्राजोलाम बरामद करने में सफलता प्राप्त की गयी

<p>1. गिरफ्तारी / सराहनीय कार्य का विवरण</p>	<p>थाना सिगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0528/2021 धारा 8/22 NDPS Act से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 अनन्त कुमार मिश्र चौकी प्रभारी रोडवेज थाना सिगरा वाराणसी मय हमराह का0 विपिन यादव व फैन्टम 27 के कर्मचारीगण HC संतोष सिंह व का0 अविनाश कन्नौजिया व क्राइम टीम सिगरा उ0नि0 प्रकाश सिंह व का0 सूरज भारती के साथ क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंचकर अभियुक्त राम दयाल मिश्र उर्फ अमन मिश्र S/O अवधेश मिश्रा R/O ग्राम- भोरकला थाना- मिर्जामुराद जनपद वाराणसी ग्रामीण उम्र- 29 वर्ष को दिनांक 12.11.2021 को समय 09.40 बजे मालगोदाम रोड से गिरफ्तार कर कब्जे से 110 gm नशीला पाउडर बरामद करने में सफलता प्राप्त किया गया। अपराध के त्वरित अनावरण से आम जन मानस द्वारा थाना सिगरा पुलिस की भूरि भूरि प्रशंसा की जा रही है।</p>
<p>2. गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व उम्र</p>	<p>राम दयाल मिश्र उर्फ अमन मिश्र S/O अवधेश मिश्रा R/O ग्राम- भोरकला थाना-मिर्जामुराद जनपद वाराणसी ग्रामीण उम्र- 29 वर्ष</p>
<p>3. संबंधित अभियोग</p>	<p>0528/2021 धारा 8/22 NDPS Act</p>
<p>4. गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</p>	<p>मालगोदाम रोड थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी दिनांक:- 12.11.2021 समय:- 09.40 बजे</p>
<p>5. घटना का विवरण</p>	<p>उ0नि0 अनन्त कुमार मिश्र चौकी प्रभारी रोडवेज थाना सिगरा वाराणसी मय हमराह का0 विपिन यादव व फैन्टम 27 के कर्मचारीगण HC संतोष सिंह व का0 अविनाश कन्नौजिया व क्राइम टीम सिगरा उ0नि0 प्रकाश सिंह व का0 सूरज भारती के देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर था तभी जरिए मुखविर खास सूचना मिली की एक व्यक्ति नशीला पाउडर अल्प्राजोलाम लेकर मालगोदाम रोड पर खड़ा है जो यात्रियों को सुघाकर सामान चोरी करने की फिराक में है। वह व्यक्ति शातिर किस्म का है यदि आप लोग जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है। मुखविर खास की इस सूचना पर विश्वास करके उ0 नि0 मय हमराहियान कर्मचारीगण व मुखविर खास को साथ लेकर कमलापति त्रिपाठी इंटर कालेज से रवाना होकर मालगोदाम रोड पर पहुंचे तो मुखविर खास द्वारा कुछ दूर पहले एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया गया मुखविर खास द्वारा किए गए इशारे पर हम पुलिस वाले इशारा किए गए व्यक्ति के पास पहुंचे तो वह अकस्मात हम पुलिस वालों को देखकर भागना चाहा कि हम पुलिस वालों द्वारा घेरघार कर एक बारगी तुरन्त पकड़ लिया गया।</p>
<p>6. अभियुक्त से पूछताछ का विवरण</p>	<p>बयान अभि0 दयाल मिश्र उर्फ अमन मिश्र पुत्र अवधेश मिश्रा नि0- भोर कला थाना मिर्जामुराद वाराणसी उम्र 29 वर्ष पूछने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बतला रहा है कि आज मैं माल गोदाम की तरफ से रेलवे स्टेशन आ रहा था कि अचानक पुलिस वालों को देखकर भागा और मुझे दौड़ा कर पकड़ लिये मेरे पास अल्प्राजोलाम का नशीला पाउडर था जिसके डर की वजह से मैं बाग रहा था जो मेरे कब्जे से बरामद हो गया है मैं इस पाउडर से अपने साथी सत्य नरायन उर्फ गुड़ाहे पुत्र दूधनाथ साहनी, शत्रुधन उर्फ जितेन्द्र साहनी पुत्र दया शंकर उर्फ अलियार मल्लाह नि0गण पसियाही थाना कंछवा जनपद मिर्जापुर व एक अन्य साथी</p>

		संदीप के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन पूछताछ केन्द्र व लाईन में मुसाफिरो से घुल मिलकर कि कहा जाना है जहाँ वे लोग बताते हैं उसी स्थान पर हम लोग भी बता देते हैं कि जाना है उनसे निकटता बनाकर चाय, बिस्कुट , पानी व भोजन में उस पाउडर को मिलाकर खिला – पिला देते हैं नशे में जब ये लोग सो जाते हैं तो उनका सामान चोरी कर भाग जाते हैं मुझसे गलती हो गयी है। इस प्रकार अभि0 जुर्म को स्वीकार करते हुए अपने गलती की मांफी मांग रहा है।
7.	बरामदगी का विवरण-	110 ग्रा0 नशीला पाउडर अल्प्रालोजाम
	1.पंजीकृत मुकदमें से संबंधित बरामदगी का विवरण	0528/2021 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी
	2.अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी का विवरण	110 ग्रा0 नशीला पाउडर अल्प्रालोजाम व 3000/- रुपया नगद।
8.	गिरफ्तार / सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण	उ0नि0 अनन्त कुमार मिश्र चौकी प्रभारी रोडवेज थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी उ0नि0 प्रकाश सिंह क्राइम टीम सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी का0 विपिन यादव थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी HC संतोष सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी का0 अविनाश कन्नौजिया थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी का0 सूरज भारती क्राइम टीम सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी
9.	आपराधिक इतिहास	1- 0528/2021 धारा 8/22 NDPS Act थाना सिगरा, कमिश्नरेट, वाराणसी 2- 0511/2021 धारा 328/379/411 भादवि थाना सिगरा, कमिश्नरेट, वाराणसी 3- 0492/2021 धारा 328/379 भादवि थाना सिगरा, कमिश्नरेट, वाराणसी 4- 0490/2021 धारा 328/379 भादवि थाना सिगरा, कमिश्नरेट, वाराणसी 5- 4549/2015 धारा 8/20 NDPS Act थाना कोतवाली थाना सिगरा कमिश्नरेट, वाराणसी 6- 0247/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना लोहता जनपद, वाराणसी 7- 0273/2018 धारा 411/414 भादवि थाना लोहता जनपद, वाराणसी 8- 0336/2018 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी कैन्ट जनपद, वाराणसी 9- 0012/2019 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी कैन्ट जनपद, वाराणसी 10- 0020/2019 धारा 8/22 NDPS Act थाना जीआरपी कैन्ट जनपद, वाराणसी 11- 0117/2019 धारा 328/379 भादवि थाना जीआरपी कैन्ट जनपद, वाराणसी

10 अभियुक्त का
फोटो मय
पुलिस टीम के
साथ



11 गिरफ्तारी व
सराहनीय कार्य
के संबंध में
संबंधित
स0पु0आयुक्त
की बाइट

-